

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 269]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 अगस्त 2023—भाद्र 8, शक 1945

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2023

क्र. एफ 3-6-2020-एक(1)-1857.—मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम के नियम 4 के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित मंत्री / राज्यमंत्री के प्रभार में उनके नाम के सामने दिये गये विभाग और / या विभाग की कार्य-सूची के विषय सौंपते हैं:—

| क्रमांक (1) | मंत्री / राज्यमंत्री का नाम (2) | सौंपे गए विभाग और / या विभाग की कार्य सूची के विषय (3) |
|----------------|--------------------------------------|---|
| 1. | श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री | सामान्य प्रशासन, विमानन, महिला एवं बाल विकास, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, आनंद एवं ऐसे अन्य समस्त विभाग जो किसी अन्य मंत्री को न सौंपे गये हों. |
| 2. | डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मंत्री | गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि और विधायी कार्य |
| 3. | श्री गोपाल भार्गव, मंत्री | लोक निर्माण |
| 4. | श्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री | जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास |
| 5. | श्री विजय शाह, मंत्री | वन |
| 6. | श्री जगदीश देवड़ा, मंत्री | वाणिज्यिक कर, वित्त, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी |
| 7. | श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, मंत्री | नर्मदा घाटी विकास |
| 8. | श्री बिसाहूलाल सिंह, मंत्री | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण |
| 9. | श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, मंत्री | खेल और युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार |
| 10. | श्री राजेन्द्र शुक्ल, मंत्री | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जनसम्पर्क |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|--|---|
| 11. | श्री भूपेन्द्र सिंह, मंत्री | नगरीय विकास एवं आवास |
| 12. | कु. मीना सिंह, मांडवे, मंत्री | जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण |
| 13. | श्री कमल पटेल, मंत्री | किसान कल्याण तथा कृषि विकास |
| 14. | श्री गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री | राजस्व, परिवहन |
| 15. | श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री | खनिज साधन, श्रम |
| 16. | श्री विश्वास सारंग, मंत्री | चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास |
| 17. | डॉ. प्रभुराम चौधरी, मंत्री | लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण |
| 18. | डॉ. महेन्द्र सिंह सिसोदिया, मंत्री | पंचायत और ग्रामीण विकास |
| 19. | श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री | ऊर्जा |
| 20. | श्री प्रेमसिंह पटेल, मंत्री | पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण कल्याण |
| 21. | श्री ओम प्रकाश सकलेचा, मंत्री | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी |
| 22. | सुश्री उषा ठाकुर, मंत्री | पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास और धर्मस्व |
| 23. | श्री अरविन्द भदौरिया, मंत्री | सहकारिता, लोक सेवा प्रबंधन |
| 24. | डॉ. मोहन यादव, मंत्री | उच्च शिक्षा |
| 25. | श्री हरदीप सिंह डंग, मंत्री | नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण |
| 26. | श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, मंत्री | औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन |
| 27. | श्री भारत सिंह कुशवाहा, राज्यमंत्री | उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण (स्वतंत्र प्रभार), नर्मदा घाटी विकास |
| 28. | श्री इंंदर सिंह परमार, राज्यमंत्री | स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), सामान्य प्रशासन |
| 29. | श्री रामखेलावन पटेल, राज्यमंत्री | पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), पंचायत एवं ग्रामीण विकास. |
| 30. | श्री राम किशोर (नानो) कांवरे, राज्यमंत्री | आयुष (स्वतंत्र प्रभार), जल संसाधन |
| 31. | श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, राज्यमंत्री | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी |
| 32. | श्री सुरेश धाकड़, राज्यमंत्री | लोक निर्माण |
| 33. | श्री ओ. पी. एस. भदौरिया, राज्यमंत्री | नगरीय विकास एवं आवास |
| 34. | श्री राहुल सिंह लोधी, राज्यमंत्री | कुटीर एवं ग्रामोद्योग (स्वतंत्र प्रभार), वन |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2023

क्र. एफ 3-6-2020-एक(1)-1858.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-6-2020-एक(1)-1857, दिनांक 30 अगस्त 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव.

Bhopal, the 30th August 2023

No. F-3-6-2020-ONE(1)-1857.—In pursuance of Rule 4 of Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to assign the charge to the following Ministers / Ministers of State, the Department(s) and / or the items(s) of business in the department(s) shown against their names:—

| S. No. (1) | Name of the Minister/ Minister of State (2) | Department(s) and / or items(s) of business in the department assigned (3) |
|---------------|---|--|
| 1. | Shri Shivraj Singh Chouhan, Chief Minister | General Administration, Aviation, Women and Child Development, Public Assets Management, Happiness and the departments not allotted to any other Minister. |
| 2. | Dr. Narottam Mishra, Minister | Home, Jail, Parliamentary Affairs, Law and Legislative Affairs. |
| 3. | Shri Gopal Bhargava, Minister | Public Works |
| 4. | Shri Tulsiram Silawat, Minister | Water Resources, Fishermen Welfare and Fisheries Development. |
| 5. | Shri Vijay Shah, Minister | Forest |
| 6. | Shri Jagdish Devra, Minister | Commercial Taxes, Finance, Planning, Economics and Statistics. |
| 7. | Shri Gaurishankar Chaturbhuj Bisen, Minister | Narmada Valley Development |
| 8. | Shri Bisahulal Singh, Minister | Food, Civil Supplies and Consumer Protection |
| 9. | Smt. Yashodhara Raje Scindia, Minister | Sports and Youth Welfare, Technical Education and Skill Development and Employment. |
| 10. | Shri Rajendra Shukla, Minister | Public Health Engineering, Public Relation |
| 11. | Shri Bhupendra Singh, Minister | Urban Development and Housing |
| 12. | Ku. Meena Singh Mandave, Minister | Tribal Affairs, Scheduled Caste Welfare |
| 13. | Shri Kamal Patel, Minister | Farmer Welfare and Agriculture Development |
| 14. | Shri Govind Singh Rajput, Minister | Revenue, Transport |
| 15. | Shri Brijendra Pratap Singh, Minister | Mineral Resources, Labour |
| 16. | Shri Vishvas Sarang, Minister | Medical Education, Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation. |
| 17. | Dr. Prabhuram Choudhary, Minister | Public Health and Family Welfare |
| 18. | Dr. Mahendra Singh Sisodiya, Minister | Panchayat and Rural Development |
| 19. | Shri Pradhuman Singh Tomar, Minister | Energy |
| 20. | Shri Prem Singh Patel, Minister | Animal Husbandry, Social Justice and Empowerment of Persons with Disabilities. |
| 21. | Shri Om Prakash Sakhlecha, Minister | Micro, Small and Medium Enterprises, Science and Technology. |
| 22. | Sushri Usha Thakur, Minister | Tourism, Culture, Religious Trusts and Endowments |
| 23. | Shri Arvind Bhadoria, Minister | Co-operation, Public Service Management |
| 24. | Dr. Mohan Yadav, Minister | Higher Education |
| 25. | Shri Hardeep Singh Dang, Minister | New and Renewable Energy, Environment |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|--|---|
| 26. | Shri Rajyavardhan Singh Premsingh Dattigaon, Minister. | Industrial Policy and Investment Promotion |
| 27. | Shri Bharat Singh Kushwah, State Minister | Horticulture and Food Processing (Independent Charge), Narmada Valley Development. |
| 28. | Shri Inder Singh Parmar, State Minister | School Education (Independent Charge), General Administration. |
| 29. | Shri Ramkhelawan Patel, State Minister | Backward Classes and Minorities Welfare (Independent Charge), Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Welfare (Independent Charge), Panchayat and Rural Development. |
| 30. | Shri Ram Kishore (Nano) Kawre, State Minister | Ayush (Independent Charge), Water Resources. |
| 31. | Shri Brijendra Singh Yadav, State Minister | Public Health Engineering |
| 32. | Shri Suresh Dhakad, State Minister | Public Works |
| 33. | Shri O. P. S. Bhadoria, State Minister | Urban Development and Housing |
| 34. | Shri Rahul Singh Lodhi, State Minister | Cottage and Rural Industry (Independent Charge), Forest |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VINOD KUMAR, Addl. Chief Secy.